



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2011/पौष 27, 1932

No. 20]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2011/PAUSA 27, 1932

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 28(अ).—वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वायुयान नियम 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 30 में, उप-नियम (2) उप-खण्ड (ii) में "तथा जिसका अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हैं" शब्दों का लोप किया जाता है।

3. उक्त नियम के नियम 41 में पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

"परंतु यह कि उस व्यक्ति को जो भारतीय वायु सेना, नौ सेना या भारतीय सेना का अर्हित पायलट है और जो यह दर्शित करने के लिए संतोषजनक साक्ष्य पेश करता है कि उसे उस स्तर का आवश्यक उड़्डयन अनुभव, सक्षमता और शारीरिक योग्यता है जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित है तो महानिदेशक द्वारा लिखित सामान्य या विशेष आदेश तथा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई है, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, इन नियमों के अधीन लाइसेंस

जारी करने के लिए, उसे सभी या किसी उड़्डयन परीक्षणों से और चिकित्सीय या अन्य तकनीकी परीक्षाओं से छूट दी जा सकेगी :"

[फा. सं. एवी. 11012/12/2010-ए]

प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पण 1. मूल नियम अधिसूचना संख्या वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 22 दिसम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित संख्या सा.का.नि. 1001(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया।

2. केन्द्रीय सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 12 जनवरी, 2011 के अपने आदेश संख्या ए.वी. 11012/12/2010-क द्वारा इस अधिसूचना के मामले में छूट दी है।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2011

G.S.R. 28(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (2nd Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 30, in sub-rule (2), in clause (a), in sub-clause (ii), the words “and the Chairman and at least two-third of the Directors of which are citizens of India” shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 41, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that a person who is a qualified pilot from Indian Air Force, Indian Navy or Air Operational Wing of the Indian Army and who produces satisfactory evidence to show that he possesses the necessary flying experience, competency and standards of physical fitness as required under these rules, may be exempted by the Director-General, by general or special order in writing, and subject to such conditions,

if any, as may be specified in such order, from all or any of the flying tests and from medical or other technical examinations required for the issue of the licences under these rules :”

[F.No. AV. 11012/12/2010-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

- Notes**
1. The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by G.S.R. 1001(E) dated 22nd December, 2010 published in Part II, Section (3), Sub-section (i) of the Gazette of India on 22nd December, 2010.
 2. The Central Government in exercise of the powers conferred by proviso to section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) has in the public interest dispensed with the condition of previous publication in case of this notification *vide* its order No. AV. 11012/12/2010-A dated 12th January, 2011 issued in the Ministry of Civil Aviation.